



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 माघ 1936 (श0)  
(सं0 पटना 252) पटना, बृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(मोति0)-8-12/2013/273—श्री अजीत कुमार ,(आई0डी0-4671) तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल सं0-1, मोतिहारी के विरुद्ध जमुनिया शाखा नहर के अंतिम छोर से निःसृत रूलही वितरणी के वि0दू0 10.00 पर दायों नहर बंध दिनांक 12.08.13 को क्षतिग्रस्त हुआ। इस संबंध में अभियंता प्रमुख (उत्तर) अपने पीत पत्र गै0स0प्रे0सं0 1129 दिनांक 06.09.13 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 1257 दिनांक 08.10.13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री कुमार अपने पत्रांक 315 दिनांक 02.01.13 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समर्पित बचाव बयान में आरोपी अभियंता द्वारा कहा गया कि नहर तटबंध टूटने का कारण अत्यधिक वर्षापात एवं नहर का रूपांकित सेक्सन में न होना बताया है तथा कहा गया है कि टूटान के 24 घंटे के अंदर उसकी मरम्मत करा ली गई एवं इसमें विभाग को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। चूंकि जिस संवेदक NCCL को संधारण का कार्य करना था, उसी से टूटान मरम्मत का कार्य कराया गया।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि इस संबंध में श्री योगेन्द्र सहनी, नियमित मजदूर द्वारा अपने बचाव बयान में स्पष्ट किया है कि टूटान स्थल पर पाईपिंग होने की सूचना श्री सहनी द्वारा 3-4 दिन पहले सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को दी गई, किन्तु सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा न तो स्थल का भ्रमण किया गया और न ही पाईपिंग रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई। अतएव सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा नहर की नियमित

पेट्रोलिंग करने की बात बिल्कुल गलत बयानी है। मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी सहायक अभियंता द्वारा अपने कतव्यों के पालन में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण नहर में टुटान हुआ।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरुद्ध निम्न दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई।

(1) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजित कुमार, सहायक अभियन्ता को निम्न दण्ड दिया गया है।

(1) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दंड श्री कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, जीवधारा, मोतिहारी को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 252-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>